



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.12.2022

**थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा 02 नफ़र वांछित अभियुक्त
1-आशीष दुबे व 2-विजय सिंह चोरी गये आभूषणों,9000/-रुपये नगद,
घटना मे प्रयुक्त स्कूटी,औजारों आदि के साथ गिरफ्तार ।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण व वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के पर्यवेक्षण मे थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-345/22 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1.आशीष दूबे पुत्र संकठा प्रसाद दूबे निवासी भोजपुर पडाव थाना मुगलसराय जिला चन्दौली हा0 पता चन्दन नगर थाना चितईपुर वाराणसी 2.विजय सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी पंचकोशी रोड रसूलगढ़ थाना सारनाथ जिला वाराणसी को ओम नगर तिराहे से आज दिनांक-09.12.2022 को समय करीब 02.45 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त मे चोरी गए आभूषण, कुल 9000/-रु0 नगद, घटना मे प्रयुक्त वाहन एक्टिवा स्कूटी, ताला तोड़ने में प्रयोग किया गया औजार हथौड़ी,एक अदद छैनी,एक बड़ी पेचकश,एक अदद पिड्डू बैग लाल रंग एवं चोरी के पैसो से खरीदा गया एक अदद आलमारी,एक अदद फ्रीज,एक अदद रुम हीटर बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-दिनांक 28.11.2022 को वादी श्री छेदी लाल पुत्र स्व0 पाँचू राम निवासी-SA-4/2A/109 आवास विकास परिषद कालोनी पाण्डेयपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी ने अज्ञात अभियुक्तों द्वारा दरवाजे की कुण्डी को तोड़कर सोने का एक मंगलसूत्र काली मोती लगा हुआ, सोने की एक चेन, सोने की 2 जेन्ट्स अंगूठी, सोने की दो लेडीज अंगूठी, सोने के कान टप्स, बाली तथा बिन्दी, चांदी की दो पाजेब, चार पायल, चांदी के पुराने गहने करधनी, छड़ा हाथ का कड़ा, एक लाख रुपया नगद तथा 01 मोबाइल फोन चुरा लेने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर मे मु0अ0सं0-0345/2022 धारा-457,380 भा0द0वि0 पंजीकृत कर, विवेचना उ0नि0 लवकुश यादव द्वारा संपादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.आशीष दुबे पुत्र संकठा प्रसाद दूबे निवासी भोजपुर पडाव थाना मुगलसराय जिला चन्दौली हा0 पता चन्दन नगर थाना चितईपुर वाराणसी उम्र 31 वर्ष ।
- 2.विजय सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी पंचकोशी रोड रसूलगढ़ थाना सारनाथ जिला वाराणसी उम्र 36 वर्ष ।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण आशीष दुबे व विजय सिंह ने बताया कि दि0-27.11.22 की रात्री में हम दोनो तथा हमारे दोस्त जिसका नाम कृष्ण मोहन पाण्डेय है ने मिलकर इसी स्कूटी पर बैठकर आवास विकास

कालोनी में जाकर एक घर में इन्हीं औजारों से कमरे की कुंडी तोड़कर ये जेवर और रुपये चोरी किये थे। उस दिन चोरी किये हुए जेवर व पैसों का बटवारा सही से नहीं हुआ था, कोई ज्यादा ले लिया था कोई कम इसलिए सही बटवारा करने के लिए आज हमारा दोस्त कृष्ण मोहन अपने साथ चोरी के माल को लेकर यहीं बुलाया था। हम दोनों उसी का इन्तजार कर रहे थे कि आप लोगो ने कपड़ लिया।

अभियुक्त आशीष दूबे ने बताया कि मुझे पैसे ज्यादा मिल गये थे तो मैंने उसी पैसे का आलमारी, फ्रीज, तथा रुम हीटर खरीद लिया है तथा कुछ पैसा खाने-पीने में खर्च हो गया है उसी में से जो पैसा बचा था आप ने 5000/- रु0 बरामद किए हैं तथा अभियुक्त विजय सिंह से ने बताया कि मुझे चोरी के 12000/- रु0 तथा 2 पायजेब सफेद धातु का मिला था, कुछ पैसे खाने पीने में खर्च हो गये हैं, जिसमें से 4000/- रु0 बचा था जो आप ने बरामद कर लिए हैं और बाकी जेवर व पैसा हम लोगो का दोस्त कृष्ण मोहन अपने साथ ले गया था।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद मंगलसूत्र पीली धातु, एक अदद चेन पीली धातु, एक अदद जेन्ट्स अंगूठी सफेद मोती लगी हुई पीली धातु, दो अदद लेडीज अंगूठी पीली धातु, दो अदद टप्स मोती लगा हुआ पीली धातु, दो अदद बाली पीली धातु, एक अदद बिन्दी पीली धातु, दो अदद पायजेब सफेद धातु, 04 अदद पायल सफेद धातु, 02 अदद हाथ का कड़ा सफेद धातु व 9000/-रु0 नगद तथा घटना में प्रयुक्त वाहन एक्टिवा स्कूटी, ताला तोड़ने में प्रयोग किया गया औजार हथौड़ी, एक अदद छैनी, एक बड़ी पेचकश, एक अदद पिड्डू बैग लाल रंग एवं चोरी के पैसों से खरीदा गया एक अदद आलमारी, एक अदद फ्रीज, एक अदद रुम हीटर बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 लवकुश यादव, उ0नि0 उपेन्द्र कुमार, उ0नि0 घनश्याम मिश्रा, हे0का0 सुरेन्द्र कुमार मौर्या, का0 चन्देश कुमार, का0 उपेन्द्र सिंह, का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

